

# वृष

वैदिक ज्योतिष - चंद्र राशि आधारित



वर्ष 2014 में भाग्य देगा  
आपका साथ? स्वयं जानिए  
अपने सितारो का हाल.



## वृषभ राशि की विशेषताएँ

वृषभ राशि भचक्र की दूसरे स्थान पर आने वाली राशि है। भचक्र पर इसका विस्तार 30 अंश से 60 अंश तक होता है। इस राशि के अन्तर्गत कृत्तिका के तीन चरण, रोहिणी के चार चरण तथा मृगशिरा के दो चरण आते हैं। इस राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है, इसलिए आपके भीतर बैल के समान गुण भी मौजूद हैं। आप जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति होंगे और आपको स्थिर रहना पसंद होगा। आप आसानी से अपनी जगह से हिलना पसंद नहीं करते हैं। यदि आपको अचानक से और अनायास कोई फैसला या किसी बदलाव के लिए कहा जाए तब आपका मूड खराब हो जाता है क्योंकि बिना विचार, मनन किए शीघ्रता से आप कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं।

आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से करते हैं। घर के सभी कर्तव्यों का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए जितना आपके वश में होता है उससे बढ़कर करते हैं। परिवार के मूल्यों पर कभी कोई आँच नहीं आने देते हैं और उनके निर्णय आपके लिए अधिक महत्व रखते हैं। आपकी अपनी विचारधारा बहुत मजबूत होती है, आपकी एक खासियत यह भी है कि आप जो काम आरंभ करते हैं उसे तब तक करते रहते हैं जब तक कि आप किसी परिणाम पर नहीं पहुँच जाते हैं। जो व्यक्ति आपके समान दायरे के होते हैं अथवा आपके समान व्यक्तित्व के होते हैं उन्हीं से आपका तालमेल ज्यादा अच्छा बैठता है और अन्य व्यक्तियों से आपको तालमेल जमाने में दिक्कत होती है इसलिए अपने समान बुद्धि के लोगों से मिलना आपको ज्यादा आरामदायक लगता है।

## 2014 Vedic Horoscope

किसी भी समस्या का समाधान आप व्यवहारिकता की कसौटी पर रहकर करते हैं, आपको हवाई किले बनाना कतई पसंद नहीं होता है. आप संयमी व धैर्यवान व्यक्ति हैं इसलिए धैर्य आपका विशिष्ट गुण होता है. आपके भीतर कुछ अवगुणभी विद्यमान होते हैं, जीवन के अधिकतर मसलों में आप किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं. एक बार जो धारणा आपके मन में बन गई तो बन गई, उसे बदलना बहु तही मुश्किल काम है. कई बार जीवन की जटिलताओ से आप बचने की कोशिश करते हैं. असुरक्षित रहना आपको नापसंद होता है इसलिए जीवन में स्थायित्व के साथ आप सुरक्षा भी चाहते हैं.

### वृषभ राशि के लिए उपयुक्त कैरियर

इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है और शुक्र ग्रह की गिनती सौम्य ग्रहों में होती है. इस ग्रह का संबंध कला से जोड़ा गया है. गीत तथा संगीत से भी यह ग्रह संबंधित है. शुक्र भोग का कारक है इसलिए सभी भोगवादी वस्तुएं इस ग्रह के अन्तर्गत आती हैं. इसलिए आप कला, गीत, संगीत तथा उच्च स्तर की भोग की वस्तुओं से जुड़ा व्यवसाय कर सकते हैं.

शुक्र ग्रह के अन्तर्गत वाहन भी आते हैं आप पर्यटन संबंधी काम भी कर सकते हैं. फिल्म, फैशन, सुंदर सिले हु एकपड़े, मुद्रण, ग्राफिक्स व वेब डिजायनिंग आदि का काम भी कर सकते हैं. होटल अथवा रेस्तरां आदि का काम भी इस ग्रह के अन्तर्गत आता है. फोटोग्राफी, प्रशिक्षक अथवा किसी भाषा का शिक्षक और कवि भी इस ग्रह के अन्तर्गत ही आते हैं.



## 2014 वृषभ राशिफल - पैसा और वित्तीय स्थिति

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

आर्थिक दृष्टिकोण से तिमाही का आरंभ मध्यम स्तर का सिद्ध हो सकता है क्योंकि इस समय बच्चों को लेकर कुछ खर्च बने रह सकते हैं. आप धन का निवेश इस समय जमीन आदि मामलों में भी कर सकते हैं. यदि आपका धन अथवा उधार दिया रुपया कहीं अटका हुआ है तब उसके इस तिमाही में मिलने की संभावना बनती है. तिमाही के मध्य भाग में आपका धन जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर भी व्यय हो सकता है. इस तिमाही में एक विशेष बात यह होगी की धन तो खर्च होगा लेकिन धन की कमी के कारण आपका कोई काम बीच में अटकेगा नहीं.

आय तथा व्यय समान होने से आप धन का संचय करने में नाकामयाब हो सकते हैं लेकिन बैंक बैलेंस घटेगा नहीं. शेयर आदि में निवेश करें तो लालच में पड़कर ज्यादा निवेश ना करें. जो भी करें बाजार की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही करें. आप यदि प्रॉपर्टी का काम करते हैं तब तिमाही के अंत समय में आपको जमीन आदि से लाभ मिलने की संभावना बनती है.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

आर्थिक दृष्टिकोण से तिमाही का पहला माह मिश्रित कहा जा सकता है. आपकी आय व व्यय समान ही रहने की संभावना बनती है. इस समय आप जमीन आदि से थोड़ा मुनाफा भी कमाने में सफल रह सकते हैं लेकिन जो भी करें अधूरी कागजी कार्यवाही के बिना ना करें. आप गलत रूप से भी लाभ कमाने की सोच सकते हैं लेकिन ऐसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है. इसलिए आप जो भी करें उसके दूरगामी परिणाम देखते हुए ही करें.

तिमाही का दूसरा भाग आपके लिए लाभदायक बना रहेगा. इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें लाभ ही पाएंगे. इस समय आपके शत्रु भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं लेकिन भाग्य को अपने पक्ष में करने के लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं. आप घर से दूर कहीं भूमि आदि क्रय करने में धन व्यय कर सकते हैं. इसके लिए आप लोन आदि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन लोन मिलने में फिजूल की भागम भाग भी बनी रह सकती है.

### जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

आर्थिक दृष्टि से यह तिमाही कुल मिलाकर आपके लिए अनुकूल कही जा सकती है. इस समय आपकी आय के स्तोत्र बढ़ने की संभावना बनती है. इस समय आप स्वयं को हल्का भी महसूस करेंगे जिससे नवीन योजनाओं के निर्माण में आपका मस्तिष्क दौड़ना आरंभ हो जाएगा और आप आय के नए साधनों के बारे में सोच विचार कर

## 2014 Vedic Horoscope

सकते हैं. किसी को उधार दिया गया पैसा भी वापिस आने की संभावना बनती है. इस तिमाही में आपके भाई-बहन भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. यह लाभ किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है. पिछले समय में आपने जो भी धन निवेश किया होगा उसमें वृद्धि की संभावना भी बनती है.

तिमाही के अंत में शायद आपको किन्हीं कारणों से ऋण आदि लेना पड़े लेकिन इससे आपको कष्ट का अनुभव नहीं होगा अपितु आपकी परेशानी का हल होगा. तिमाही के दूसरे भाग से आपका मन शेयर बाजार में निवेश करने का भी रहेगा. यह निवेश आपके लिए अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी साबित नहीं होगा लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अधिक जोखिम उठाएं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से निवेश किया जा सकता है.

### **अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय**

तिमाही का आरंभ समय आपके लिए व्यय से भरा हो सकता है. आपके खर्चे अनायास बढ़ सकते हैं और इससे आपके भीतर रोष व्याप्त रह सकता है. अधिकतर धन आपका अनैतिक बातों को पूरा करने में व्यय हो सकता है. आप जुआ, सट्टा अथवा मादक द्रव्यों पर इस समय अधिक धन व्यय कर सकते हैं अथवा बुरी संगति में पड़कर आप धन को उड़ाने में लगे रह सकते हैं. इस व्यय के कारण आपको काफी ज्यादा धन का अभाव महसूस हो सकता है. आप चाहते हुए भी स्वयं को धन की बर्बादी से नहीं रोक पाएंगे. इस समय आपका जीवनसाथी आपको संभालने में पूरी मदद करेगा लेकिन यह बात आपको कुछ देर से समझ आएगी.

आपकी बुद्धि का कारक बुध भी इस तिमाही में पीड़ित अवस्था में रहेंगे जिससे आपको सही और गलत का पता नहीं चल पाएगा और आप गलत सोहबत में पड़ जाएंगे. तिमाही के दूसरे भाग से लेकर अंतिम भाग तक आपका जीवनसाथी आपके लिए लाभ जुटाने और घर की आर्थिक व्यवस्था को संभालने में काफी कोशिशों के बाद सफल हो सकता है. दूसरे माह के बाद आपको भी कुछ समझ आएगी लेकिन इस हानि को आप गलत तरीके से पूरा करने की सोच सकते हैं जो आपके हित में नहीं होगा.

### **विशेष**

आर्थिक स्थिति में सुधार बना रहे इसके लिए आप गणेश जी की पूजा प्रतिदिन सुबह के समय अवश्य करें.



## 2014 वृषभ राशिफल - कैरियर और प्रोफेशन

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

कैरियर के नजरिए से तिमाही का आरंभ समय आपके लिए परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है. आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यों के लिए आपको बार-बार प्रयास करने पड़ेंगे. एक ही काम को लेकर आप बीच में लटके रह सकते हैं. आपका बॉस भी आपसे इस समय नाखुश रह सकता है. परेशानी की हालत में बॉस से आपकी बहस भी हो सकती है. तिमाही मध्य तक का समय आपका डांवाडोल स्थिति में बना रह सकता है. आपके लिए उचित यही होगा कि आप हड़बड़ी ना मचाएं और धैर्य के साथ अपनी कमियों और जरूरतों को समझने का प्रयास करें कि कहां, क्या गड़बड़ है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं.

तिमाही के अंत में आपके कार्य गति पकड़ सकते हैं और आप उन्हें निपटाने में सफलता पा सकते हैं. आफिस की राजनीति से स्वयं को बचाकर रखेंगे तो मानसिक तनाव काफी हद तक कम बना रहेगा. बेशक आपके काम की गति थोड़ी धीमी रहे लेकिन अपने विरोधियों को आप मात देकर रखेंगे. आप व्यवसाय करते हैं तो तिमाही का पहला माह आपके लिए अनुकूल रहेगा लेकिन आपको असंतुष्टि बनी रहेगी क्योंकि आप जितना परिश्रम करेंगे उससे कुछ कम की प्राप्ति आपको होगी. तिमाही के दूसरे माह में आपको काफी परेशानियों तथा बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस से लाभ कम तो व्यय अधिक बने रहने की संभावना बन रही है, इसलिए कठिनाई का यह समय आप स्थिर रहकर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा. तिमाही के अंतिम माह में आपकी गतिविधियाँ भी बढ़ सकती हैं और काम के सिलसिले में काफी भाग-दौड़ बनी रह सकती है. बाजार में आपके लिए नित नई प्रतिस्पर्धा चुनौती के रूप में आ खड़ी हो सकती है. आप यदि साझेदारी में काम करते हैं तो आपको संभलकर रहना होगा क्योंकि आपके प्रतिद्वंद्वी आप दोनों के मध्य फूट डालने का प्रयास कर सकते हैं.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

तिमाही के आरंभ समय में आप अपने काम को ज्यादा बढ़ाने की सोच सकते हैं या फिर आप काम में कुछ परिवर्तन करने का भी मन में विचार बना सकते हैं. यदि आप इस समय किसी के साथ मिलकर नया व्यवसाय करना चाहते हैं तब कुछ समय तो आप साथ में काम करेंगे लेकिन बाद में आप अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकते हैं. आरंभ में आपको कुछ परेशानियाँ बनी रहेगी लेकिन बाद में धीरे-धीरे थोड़े उतार-चढ़ाव के बाद

## 2014 Vedic Horoscope

आप सफल हो जाएंगे. अपने काम को लेकर आपका लचीला होना बहुत आवश्यक है. किसी तरह की जिद को पालकर मन में नहीं रखें.

तिमाही का मध्य भाग आपके लिए कुछ अनुकूल कहा जा सकता है लेकिन परेशानियाँ तथा बाधाएँ भी साथ में ही बनी रहेंगी. तिमाही के अंतिम भाग में आपको ज्यादा भाग - दौड़ करनी पड़ सकती है और काम को बढ़ाने के चक्कर में व्यय ज्यादा भी हो सकता है. इस समय आपको अपने माल की गुणवत्ता का स्वयं ध्यान रखना होगा क्योंकि इसकी गुणवत्ता में कारीगर लापरवाही बरतते हुए कमी कर सकते हैं. इससे आपका नाम बदनाम हो सकता है और फिर से बाजार में अपनी पैठ बनाना सरल नहीं होगा. इसलिए यही बेहतर है कि आप स्वयं बीच-बीच में नजर अवश्य रखें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए तिमाही का पहला भाग शुभ कहा जा सकता है. आप अपने कार्यक्षेत्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं और आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है लेकिन इससे आपके विरोधी आपसे अधिक ईर्ष्या भाव रखना आरंभ कर सकते हैं जिससे आपकी मानसिक परेशानियों में भी इजाफा हो सकता है और तिमाही के अंतिम समय में तो आप हताशा महसूस कर सकते हैं. यही आपके शत्रुओं के लिए जीत साबित हो सकती है. परेशान होने की बजाय आपको अपने काम में मन लगाना चाहिए और शत्रुओं को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप परेशान हैं. जो लोग विदेश में नौकरी ढूँढ रहे हैं उन्हें वीजा मिलने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं.

## जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

कैरियर के दृष्टिकोण से तिमाही का आरम्भ समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप जो भी काम आरंभ करेंगे उसे समय पर पूरा कर पाएंगे. इस तिमाही में आपका स्थानांतरण भी होने की संभावना बनती है लेकिन आप इस स्थानांतरण से नाखुश रह सकते हैं. तिमाही के दूसरे भाग में इस कारण आपकी मानसिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और आपकी बुद्धि भ्रमित सी बनी रह सकती है. तिमाही के तीसरे भाग में आपका मन कार्यक्षेत्र पर रमना आरंभ हो जाएगा और आप फिर से ढर्रे पर चलना आरंभ कर देंगे.

तिमाही का दूसरा भाग कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अधिक लाभप्रद तथा उपलब्धियों वाला सिद्ध होने की संभावना बनती है. जिन लोगों के काम का संबंध विदेशों से है और संचार से है उनके लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है. दूसरे भाग में आपकी काम को लेकर अत्यधिक भाग-दौड़ रहेगी. तिमाही के अंतिम भाग में काम के बनने में बाधाएं आने की संभावना बनती है, यह बाधा आपके सहयोगियों द्वारा उत्पन्न की हुई हो सकती है.

## 2014 Vedic Horoscope

बिजनेस के नजरिये से यह तिमाही मिश्रित फल प्रदान करने वाली सिद्ध होगी. आपके गुप्त शत्रु आपके काम में अड़चनें पैदा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं. हर व्यवसाय का अपना एक संगठन होता है और उसके कुछ मुख्य कार्यकार सदस्य भी होते हैं. तिमाही के इस भाग में आपको इस संगठन का सदस्य चुना जा सकता है लेकिन आरंभ में कुछ लोग आपके खिलाफ रहेंगे लेकिन तिमाही के अंतिम भाग तक सभी आपकी सदस्यता को स्वीकृति प्रदान कर देंगे. इससे पहले आप भी परेशान रहेंगे क्योंकि आपके पैर उखाड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी. अन्ततः सभी आपके विचारों से प्रभावित हो जाएंगे और कुछ को आप कूटनीति से अपनी ओर कर ही लेगे.

### अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय

तिमाही का पहला भाग आपके लिए परेशानियों से भरा हो सकता है. आपके शत्रु आपके पैर उखाड़ने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं. आप इससे घबराकर नौकरी छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऐसा करना आपको ज्यादा परेशानी में डाल सकता है और आप काफी समय तक बिना नौकरी के बैठ सकते हैं. तिमाही के पहले और दूसरे भाग को ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. ज्यादा परेशानी महसूस होने पर आप कुछ समय के लिए अवकाश ले सकते हैं क्योंकि पुनः आप एक नई ऊर्जा के साथ काम पर जा सकेंगे. इससे आप अपने विरोधियों से निपटने में भी सफल रहेंगे. तिमाही के दूसरे भाग में आप अपने कार्य स्थान पर अपने काम को फिर से पटरी पर लाने में कामयाब रहेंगे लेकिन एक बात का खयाल यह रहे कि आप अपने उच्चाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई बहस ना करें क्योंकि विरोधियों के षडयंत्र को तो आप झेल लेंगे लेकिन बॉस की नाराजगी आपको महंगी पड़ सकती है.

बिजनेस के लिए तिमाही का पहला भाग अनुकूल नहीं कहा जा सकता है लेकिन दूसरे भाग से आपके लाभ में वृद्धि होना आरंभ हो जाएगी फिर उसके बाद आप तिमाही के अंत तक आगे ही बढ़ते जाएंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे. साझेदारी का व्यवसाय करने वालों के लिए भी तिमाही का अंतिम भाग ज्यादा लाभदायक रहेगा और आपको लोग आपके काम से पहचानना आरंभ कर देंगे. बाजार में आपकी पहचान बनना आरंभ हो जाएगी. आपका साझेदार आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा लेकिन तिमाही के मध्य भाग में आप दोनो थोड़ा संभलकर रहें और किसी की बात में आकर एक-दूसरे पर अविश्वास प्रकट ना करें.





## 2014 वृषभ राशिफल - हैल्थ और फिटनेस

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

तिमाही के आरंभ में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ सकता है क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल व शनि से दृष्ट भी हो रहे हैं. जनवरी माह में शुक्र वक्री अवस्था में भी रहेंगे. दो पाप ग्रहों की दृष्टि व वक्री अवस्था, शारीरिक परेशानियों के साथ मानसिक परेशानियों को भी बरकरार रख सकती है.

वक्री होने पर ग्रह स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर ही समझा जाता है. इस समय आपको वाहन आदि चलाने में भी सतर्क रहना चाहिए. यह ना सोचें कि सड़क पर आप सही है तो दूसरा व्यक्ति भी सही ही होगा. इस समय आपको मूत्र संबंधी परेशानियों अथवा जल संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. समय पर चिकित्सक की सलाह लें. तिमाही के अंतिम माह से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना आरंभ हो जाएगा.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

तिमाही का पहला भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा, आप स्वयं को फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे. अगर हु आतो खाने की लापरवाही से आपको गैस आदि की परेशानी महसूस हो सकती है जिसे आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं. तिमाही का दूसरा माह भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा बना रहेगा लेकिन इस समय आपको तेज धारदार वस्तुओं के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए. तिमाही के अंतिम समय में आपको स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव हो सकता है, खासकर जिन्हें पथरी की समस्या है उन्हें पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है. आपको लापरवाही बिलकुल भी नहीं बरतनी चाहिए और चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए. आपको पैरों में भी तकलीफ बनी रह सकती है.

### जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

तिमाही का आरंभ समय आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा लेकिन शरीर में आलस्य बना रह सकता है. आलस्य को दूर करने के लिए आप योग तथा ध्यान का सहारा ले सकते हैं. सुबह की सैर से भी आपका चित्त शांत तथा शरीर में चुस्ती प्रदान करने वाला रह सकता है. तिमाही के मध्य भाग में आप शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं. आप वाहन चलाते हैं तो तिमाही का मध्य भाग आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, विशेषकर दुपहिया चलाते समय आपको सतर्क रहना होगा.

## 2014 Vedic Horoscope

यदि आप डायबिटीज के शिकार हैं तो इस समय वह बढ़ सकती है क्योंकि आप अत्यधिक मानसिक परेशानी पालकर रख सकते हैं अथवा आप खानपान में अत्यधिक लापरवाही बरत सकते हैं. परहेज करने के साथ आप समय पर चिकित्सक की सलाह भी लेते रहें.

### **अक्तूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय**

तिमाही का आरंभ आपकी खराब सेहत से हो सकता है. आपको मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों का सामना करना पड़ेगा. आपकी बुद्धि इस समय भ्रमित रहेगी, इस समय आपको अपने खानपान पर भी ज्यादा ध्यान चाहिए अन्यथा पेट से जुड़े रोग आपको परेशानी में डाल सकते हैं. इस समय आपको चिकित्सक के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ सकते हैं. कम्प्यूटर पर अधिक समय बैठकर काम करते हैं तो सिरदर्द अथवा आंखों से जुड़े रोग भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं. काम करते समय बीच-बीच में अपनी आंखों को थोड़ा विश्राम अवश्य दें. इस तिमाही में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना आपको करते ही रहना पड़ सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने से और लापरवाही ना बरतने से आपको कुछ राहत अवश्य मिल सकती है.

### **विशेष**

तिमाही के इस माह में आपको सुबह अथवा संध्या समय में शुक्र स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए.



## 2014 वृषभ राशिफल - प्रेम संबंध

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

प्रेम संबंधों के लिए यह तिमाही अनुकूल नहीं कही जा सकती है. क्योंकि पंचम भाव में मंगल का गोचर आप दोनों के मध्य दरार उत्पन्न करने का काम कर सकता है. रोज की तकरार से आप परेशान हो सकते हैं और मन में खिन्नता भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन समाया रह सकता है. तिमाही का मध्य भाग आप प्रेम संबंधों के सुधार में ही लगे रह सकते हैं कि किसी तरह से माहौल शांतिमय बन जाए.

तिमाही के अंत में कुछ सुधार की गुंजाइश नजर भी आएगी लेकिन अंतिम सप्ताह से फिर किसी कारण से पुनः मतभेद पैदा हो सकते हैं. परेशान होने की बजाय आप अपने प्रेमी और खुद को कुछ समय दें जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है अर्थात आप दोनों एक-दूसरे को चाहते भी हैं या नहीं ! या फिर महज ये एक आकर्षण है.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

जो स्थिति पहले बनी रही है वही स्थिति अभी तक बरकरार रह सकती है. अगर कुछ सुधार आने की संभावना बनती भी तो वह तिमाही के दूसरे भाग में बन रही है. पहले भाग में तो आपके प्रेम संबंधों की दरार खाई का रूप ले सकती है. दूसरे भाग में आपका साथी तो उग्र ही रहेगा जो भी सुधार की कोशिश होगी वह आपकी ओर से होगी लेकिन कुछ समय स्थिति अनुकूल रहने के बाद अंतिम समय में आपको फिर से स्थिति बिगड़ती हुई सी नजर आ सकती है. इससे आपकी परेशानी पहले की अपेक्षा अब और अधिक बढ़ सकती है. इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने प्रेम को विवाह में बदलने की ठान लें लेकिन परिवार वालों के तैयार ना होने पर आपका प्रेमी रुष्ट हो जाए. आप जो भी करें सोच विचार कर ही करें.

### जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

प्रेम संबंधों में पिछले कुछ समय से जो भी उतार-चढ़ाव वाला समय चला हुआ था वह आपके प्रेम संबंधों के टूटने से खतम हो सकता है. आप आसानी से किसी रिश्ते को खतम नहीं करते हैं लेकिन जब काफी समय तक परेशानी चलती रहती है तब उसमें सुधार की बजाय आप उसे खतम करना ही उचित समझते हैं. इस तिमाही में आप यही करने वाले हैं. रोज की किच-किच से परेशान होकर और रोज के रुठने-मनाने के चक्कर से दुखी होकर आप अपने प्रेम संबंधों को खतम करना ही उचित समझेंगे. इससे आप भावनात्मक रूप से कुछ समय कमजोर पड़ सकते हैं और किसी काम को करने में भी आपकी इस कारण से अरुचि बनी रहेगी.

## **अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय**

एक बार प्रेम संबंध टूटने के बाद आप इस समय स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं और अभी आप किसी अन्य से जुड़ने का बिलकुल भी नहीं सोच सकते हैं. आपके परिवार वाले इस समय आपके प्रेम संबंधों में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे अर्थात वह टूटने के पक्ष में ही रहेंगे. अपने अकेलेपन को दूर करने और भावनात्मक कमी को भरने के लिए आप अनैतिक संबंधों का आरंभ कर सकते हैं क्योंकि परेशानी की हालत में आपको कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन यह आपके लिए बदनामी का कारण बन सकता है. इसलिए आप बिना सोचे विचारे भावनाओं में बहकर कुछ ना करें.

तिमाही के मध्य भाग में फिर से आपका आकर्षण किसी की ओर हो सकता है और हो सकता है कि आप सोशल साईट के किसी मित्र से फ्लर्ट करना आरंभ कर दें लेकिन यह आपका केवल आकर्षण मात्र होगा और इसमें प्रेम की बू नहीं होगी. आपका यह संबंध इस बार सभी से छिपा रह सकता है.



## 2014 वृषभ राशिफल - विद्यार्थी

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

विद्यार्थियों के लिए यह तिमाही कुछ प्रतिकूल बनी रह सकती है. मन मस्तिष्क भटका हुआ आसा रहेगा. पढ़ाई की ओर से आप पूरी तरह से विमुख रह सकते हैं और मित्रों के साथ बुरी संगत में पड़ सकते हैं. आपका मन अपने प्रेम संबंधों के कारण भी भटका हुआ आसा रह सकता है और यह प्रेम संबंध केवल आकर्षण मात्र होगा, लेकिन जब तक आपको यह बात समझ आएगी तब तक आप अपने सहपाठियों से पिछड़ चुके होंगे. आपके लिए उचित यही होगा कि आप समझदार बने और शिक्षा की ओर ध्यान दें. घूमना - फिरना भी जरूरी है लेकिन सभी बातें एक सीमा में रहकर ही अच्छी लगती हैं.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

यदि आपने कुछ सुधार करने की कोशिश नहीं की तो स्थिति पूर्ववत् ही बने रहने की संभावना बनी रह सकती है. आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो पढ़ाई तो निश्चित तौर पर आपको आरंभ करनी होगी. तिमाही के मध्य भाग में आपका मन विशेष रूप से खेल - कूद अथवा पिकचर आदि देखने का कर सकता है. आप सभी कुछ करें लेकिन सभी कामों के लिए समय सीमा तय कर के चलें कि कितने समय क्या करना है अन्यथा आपके माता-पिता को आपसे निराशा हाथ लगेगी जिससे उनका मन व्याकुल रहेगा. प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए तिमाही का मध्य भाग अनुकूल रहेगा लेकिन अंतिम भाग में उम्मीद से कम की गुंजाइश बनती है.

### जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

विद्यार्थियों के लिए तिमाही का आरंभ समय कुछ अनुकूल कहा जा सकता है लेकिन बुद्धि कुछ भ्रमित सी बनी रह सकती है. जिन विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखने में दिलचस्पी है उन्हें इस तिमाही में दाखिला मिल सकता है. खेल-कूद में भाग तो आप लेंगे लेकिन अपने अत्यधिक विश्वास के कारण विफल भी पा सकते हैं, इसलिए कामयाब होना है तो अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने से कम समझने की भूल ना करें. आपकी बुद्धि में जल्दबाजी तथा उग्रता भी बनी रह सकती है जिसका उपयोग आप उलटे कामों की बजाय उपलब्धियाँ पाने में करें.

### अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय

तिमाही का पहला तथा दूसरा भाग विद्यार्थियों के लिए तनाव भरा रह सकता है. आप गलत मित्रों के चक्कर में पड़कर या फिर सारा दिन मोबाईल अथवा खेल कूद में ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं. जिससे आप काफी पीछे रह सकते हैं अथवा आपके अंक अच्छे नहीं आएंगे. आपका मन पढ़ाई से उचाट ही रहेगा. किसी के समझाने का भी

## 2014 Vedic Horoscope

आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कोई क्या कह रहा है, ऐसा आपके पंचमेश बुध के वक्री होने के कारण हो सकता है और लग्नेश इस समय नीच राशि में रहेगे.

तिमाही के दूसरे भाग में आपका ध्यान अपने सहपाठियों से प्रेम संबंध स्थापित करने में लगा रह सकता है अथवा उनके साथ हर समय गप्पे हांकने में आप ज्यादा आनंद का अनुभव कर सकते हैं. तिमाही के अंतिम समय तक आपका मन पढ़ाई की ओर से विमुख ही रह सकता है.

### विशेष

तिमाही के इस भाग में विद्यार्थियों को सरस्वती मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए और 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने का नियम भी बनाना चाहिए. इससे पढ़ाई में मन लगा रहेगा और आप जी नहीं चुराएंगे.



## 2014 वृषभ राशिफल - यात्रा

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

यात्राओं के लिए तिमाही का आरंभ समय ज्यादा पक्ष में नहीं रहेगा. उद्देश्यों को लेकर की गई यात्राओं की सफलता में संदेह बना रह सकता है. इन यात्राओं में आपकी बेकार की दौड़-धूप बनी रहेगी. जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से पूर्व आप अपने आवश्यक सामान की सूची बनाकर तब सामान की पैकिंग करें. तिमाही का अंतिम माह यात्राओं के लिए अनुकूल रहेगा और आप इस समय परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने पर राह में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. विशेषतौर पर आप अपने कीमती सामान का ध्यान रखें. अपने मोबाईल अथवा कैमरे आदि को हिफाजत से रखें और अपने साथ कैश ज्यादा ना रखें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेकर चलें. तिमाही के अंत समय में बच्चों के दाखिले आदि को लेकर भी आपको छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है. इन यात्राओं का फल आपके लिए मिश्रित होगा. तिमाही का अंतिम समय यात्राओं के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. इस समय को आप नजर अंदाज करें तो बेहतर रहेगा.

### जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

तिमाही का आरंभ आपके लिए अनुकूल बना रहेगा और उद्देश्यों को लेकर की गई यात्रा आपके लिए सुखकारी तथा सफल रह सकती है. इस तिमाही में आपकी यात्राएं भी काफी हो सकती हैं. किसी ना किसी कारण आपको जाना पड़ सकता है. तिमाही का मध्य भाग आपकी यात्राओं के लिए मिश्रित फल प्रदान करने वाला रहेगा. इस समय की गई यात्रा आपको सफलता तो प्रदान कर देगी लेकिन आपका स्वास्थ्य इस समय प्रभावित हो सकता है. तिमाही के अंत समय में आप धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें.

### अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय

यात्राओं के लिए वर्ष की अंतिम तिमाही मिश्रित फल प्रदान करने वाली रह सकती है क्योंकि आप यात्राओं में स्वयं को असहज महसूस कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के कारण बिना मन के भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है. छोटी दूरी यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर मन में घबराहट पैदा हो सकती है. जिन लोगो को विदेश यात्रा पर जाना है उनके लिए तिमाही का पहला और अंतिम भाग ज्यादा अनुकूल रहेगा. मध्य भाग

## 2014 Vedic Horoscope

को आप यदि आवश्यक ना हो तो नजर अंदाज करने का प्रयास करें.





## 2014 वृषभ राशिफल - परिवार

### जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक का समय

पारिवारिक दृष्टिकोण से तिमाही का आरंभ समय अशांतिपूर्ण हो सकता है लेकिन समय के साथ परिवार फिर एक हो जाएगा. सभी सदस्य एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे और मिल-जुलकर रहेंगे. तिमाही के आरंभ में यदि आप जमीन आदि में निवेश की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं अर्थात् जमीन तो देख लें और बात भी पक्की कर सकते हैं लेकिन रुपयों का लेन-देन आप जनवरी माह के मध्य बाद ही करें. परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद चला आ रहा था उसके निपटने की उम्मीद बनती है. कोर्ट - केस आदि के लिए तिमाही का मध्य भाग आपके लिए अनुकूल तो रह सकता है लेकिन बहुत ही कठिनाईयों और परेशानियों को सामना करने के बाद. आपको हिम्मत से डटे रहकर मनोबल को ऊंचा बनाए रखना चाहिए.

जिन लोगो के प्रेम संबंध बने हुए हैं वह अपने विवाह की बात घर में उठा सकते हैं और इसको लेकर हंगामा खड़ा हो सकता है. आपकी माताजी के ज्यादा अड़ने की बात नजर आती है, वह शायद ही मानें और आप भी जिद में आकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं. आप जो भी करें सोच-समझ कर करें क्योंकि आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए आवेश या जल्दबाजी में काम ना लें. जल्दबाजी और जिद में लिया निर्णय कई बार गलत भी सिद्ध होता है. माता-पिता का स्वास्थ्य भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. मित्र आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.

### अप्रैल 2014 से जून 2014 तक का समय

इस तिमाही में आपका जीवनसाथी ज्यादा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है और उसके व्यवहार में भी रुखापन समाया रह सकता है. आप समझदार व्यक्ति हैं इसलिए प्यार से आप कारण जानने का प्रयास करें कि क्यों ऐसा हो रहा है. तिमाही के मध्य भाग में आप अपनी संतान को लेकर चिन्तित रह सकते हैं और इसका कारण आपके साथी तथा बच्चो के मध्य उभरे मतभेद हो सकते हैं. इससे घर का वातावरण भी प्रभावित हो सकता है. घरेलू व आर्थिक परेशानियों से दुखी होकर आप कुछ समय अकेले कहीं बाहर जाकर बिताना पसंद कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी प्राकृतिक स्थल पर जा सकते हैं.

तिमाही के अंतिम भाग में घर के आवश्यक कामों के लिए खर्च कुछ बढ़े हुए से रह सकते हैं. जिससे आप आर्थिक तंगी का अनुभव कर सकते हैं. यदि आप घर बदलने की सोच रहे हैं तब उसके लिए तिमाही का मध्य भाग ही आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा उसके बाद का समय आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है.

## जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक का समय

तिमाही का आरंभ समय अनुकूल रहेगा. प्रॉपर्टी को लेकर चला आ रहा विवाद किसी व्यक्ति की मध्यस्थता से निपटने की संभावना बनती है. माता की ओर से भी धन लाभ बने रह सकते हैं और जमीन आदि का भी आपको लाभ हो सकता है. संतान की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं उन्हें तिमाही के मध्य भाग में शुभ समाचार मिल सकता है लेकिन गर्भ धारण के बाद अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. दांपत्य जीवन को लेकर तिमाही का अंतिम भाग ज्यादा अनुकूल कहा जा सकता है. अविवाहितों के विवाह की बात इस तिमाही में पक्का हो सकती है.

इस तिमाही के अंत समय में आपके जीवनसाथी के व्यवहार में सुधार होगा लेकिन उसके कारण घर के खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है. तिमाही के अंतिम भाग में आपकी माताजी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है और माताजी के साथ आपकी संतान के मतभेद बने रह सकते हैं. आप बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे तो वह अवश्य ही मान जाएंगे.

## अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक का समय

पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका दांपत्य जीवन अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि इस समय मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे. तिमाही का पहला और अंतिम भाग ज्यादा अनुकूल रहेगा और अंतिम भाग में तो आपका साथी आपके लिए भाग्योदय कारक रह सकता है. इस तिमाही में संतान की ओर से आपको असंतुष्टि बनी रह सकती है और इस कारण हर समय आप मानसिक परेशानी से भी घिरे रह सकते हैं. आपके मामा पक्ष की ओर से आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है और यह हानि आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है. इस तिमाही में आपका मनोबल तथा आत्मविश्वास कुछ गिरा सा रह सकता है इसलिए घर के कामकाज तथा जिम्मेदारियों के प्रति आप लापरवाह रह सकते हैं. आपकी वाणी में भी कड़वाहट भरी रह सकती है जिसके कारण घर का वातावरण असंतोषजनक हो सकता है.

बच्चों का स्वास्थ्य इस तिमाही में आपको परेशान कर सकता है. किसी मित्र अथवा पड़ोसियों से उलझने का प्रयास ना करें अन्यथा बिना बात केस आदि का सामना करना पड़ सकता है. तिमाही के अंतिम समय में आपकी माता अथवा माता समान घर की किसी महिला से झगड़ा हो सकता है. आपको इस मामले में सचेत रहना होगा.

## वृषभ राशि के लिए वर्ष 2014 में उपाय

आपको पूरे वर्ष "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप 108 बार प्रतिदिन सुबह के समय करना चाहिए. इसके साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए.

